

## अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस विद्यार्थियों के साथ ऑन-लाइन सम्पन्न

दिनांक 21 जून, 2021 को महाविद्यालय में जूम मीटिंग एप्प पर योग दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को जोडा गया व योगाभ्यास करवाया गया। इसके लाभ व महत्व को बताया गया। प्राचार्य डॉ. रीटा शर्मा ने विद्यार्थियों को सम्बोधित किया व योग अपनाने की बात पर बल दिया। इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. छगनलाल कुमावत रहे।